

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 16] नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 5, 1979/पौष 15, 1900

No. 16] NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 5, 1979/PAUSA 15, 1900

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation.

वाणिज्य, नागरिक आपूर्ति एवं सहकारिता मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

आवृत्ति संख्या-2/79

नई दिल्ली, 5 जनवरी, 1979

आयात व्यापार नियंत्रण

क्र. आ. 17(अ).—आयात एवं निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 (1947 का
18) के खंड 3 द्वारा दत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, आई. टी. सी.
आवृत्ति संख्या-7/78, दिनांक 3-4-1978 द्वारा प्रकाशित खुले सामान्य लाइसेंस संख्या-
1/78 और आई. टी. सी. संख्या-8/78, दिनांक 3-4-1978 द्वारा प्रकाशित खुले सामान्य
लाइसेंस संख्या-2/78 में एतद्वारा निम्नलिखित संशोधनों की रचना करती हैं :—

(1) खुले सामान्य लाइसेंस संख्या-1/78 की शर्त संख्या (8) में निम्नलिखित
शब्द अंत में जोड़ा जाए :—

“या पक्की संविदा जो 28-2-1979 को या इससे पहले विदेशी मुद्रा के व्यापारी (बैंक) के साथ पंजीकृत हो, के मद्दे 31-3-1980 को या इस से पहले पोतलदान किया गया हो ;”

(2) खुले सामान्य लाइसेंस संख्या-2/78 में, निम्नलिखित को शर्त संख्या (4) के अंत में जोड़ा जाए :—

“या पक्की संविदा जो 28-2-1979 को या इससे पहले विदेशी मुद्रा के व्यापारी (बैंक) के साथ पंजीकृत हो, के मद्दे 31-3-1980 को या इससे पहले पोतलदान किया गया हो । ”

[मिसिल संख्याआइसीसी/3/15/78]

का. वें. शेषाद्री, मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात

MINISTRY OF COMMERCE, CIVIL SUPPLIES & COOPERATION

(Department of Commerce)

ORDER NO. 2/79

New Delhi, the 5th January, 1979

IMPORT TRADE CONTROL

S.O. 17(E).—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Imports and Export, (Control) Act, 1947 (18 of 1947), the Central Government hereby makes the following amendments to the Open General Licence No. 1/78, published vide ITC Order No. 7/78, dated 3rd April, 1978 and No. 2/78 published vide ITC Order No. 8/78, dated 3rd April, 1978 :—

(1) In condition No. (8) of OGL No. 1/78, the following may be added at the end :—

“or shipped on or before 31st March, 1980 against a firm contract entered into and registered with a foreign exchange dealer (Bank) on or before 28th February, 1979”;

(2) In OGL No. 2/78, the following may be added at the end of condition No. (iv) :—

“or shipped on or before 31st March, 1980 against a firm contract entered into and registered with a foreign exchange dealer (Bank) on or before 28th February, 1979;”

[F. No. IPC/3/15/78]

K. V. SESHADRI, Chief Controller of Imports & Exports